

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी चुनौती  
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ  
पन्ने है यह मापी पुरत श्री...~~अमर उल्लद~~  
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अदार प्रमणडल....~~पुरुषी~~....को निर्गत  
किया जाता है।

*[Signature]*  
कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमणडल, मध्यवनी  
*[Signature]*  
५५१०३२

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 2746

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
18t On Ate Bill					
Name of work :- Output - Performance					
Ground / Meant of road					
- From PWD road to Majholi					
order 30x51 M/R - L- 85m					
Area of Agency - Lalit Hitech park					
Park Ltd, Bagdarpur.					
Or Shyampur.					
Aggr date - 10 MBD / 2022-23					

Date of Start - 10/10/2022

Date of Completion - 18/07/2023 (As Aggr)

Work done

1) clay &amp; Gravelly sand land :-

$$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 300.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 300.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 300.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 3 \times 30.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 180.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 20.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 40.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 300.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 2 \times 30.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 120.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 5.00 \times 1.00 (\text{sq}) = 10.00 \text{ m}^2$$

775.00  $\frac{\text{sq}}{\text{sq}}$  1550.00  $\text{m}^2$ 

Continuation of 0.155 Hect

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
11) Post & fixing Piling & Mandali Sign Board					
					Q/H under Part - 19 stat 11
a) 600mm equ-Δ - 5 Nos.					
	Q	R 4579 = 948	—	R 02899 =	
b) 600mm Circle - 3 Nos.					
	Q	R 4605 = 518	—	R 13817 =	
c) 600x450mm Recty - 3 Nos.					
	Q	R 4448 = 602	—	R 13346 =	
d) 900mm Octagon - 2 Nos.					
	Q	R 9300 = 952	—	R 18602 =	
12) Reinforced concrete slab					
Bricklay P/M					
	Q/H under Part - 19 stat 12				
10 Nos. Q R 747 = 348 — R 7473 =					
13) Planting of trees of road					
Side					
	Q/H under Part - 20 stat 13				
26 Nos. Q R 1038 = 718 — R 27006 =					
14) Plastering of CP parapet mischer M (1, A)					
	Q/H under Part - 20 stat 14				
20.16m <sup>2</sup> Q R 198 = 60/m <sup>2</sup> — R 4004 =					

20 " Mischer M (1, A)

Continuation

E 02431112 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
15) Parapetting of road - with border on parapet - Qty rate Tm B.P. (2) 24 (15)					
20.16 m <sup>2</sup> @ Rs 11/- = 51/- ✓ P. 23.19 = 0					
16) Cost of G.B. - Qty rate Tm B.P. (2) 24 (16)					
56.70 m <sup>2</sup> @ Rs 35/- = 201/- ✓ P. 202.64 = 0					
Add - 12% G & T to 201 = 263.68 = 0					
Add 1% L.Cess - P. 263.68 = 0					
Add 2% F. rate P. 0 = Rs 16,328 = 0					
Add 2% F. rate P. (2) = Rs 16,699 = 0					
Add 2% F. rate T.M.B. P. (2) = 27.67 m <sup>3</sup>					
Cost P. 30,05,931 = 0 3005822					
Less 13.29 m <sup>3</sup> top 399474.					
Add 1% - P. 399,488 = 0					
P. 26,06,445 = 0 2606348					
Less 2 new paper P. 22,35172 = 0 ✓					
P. 35127 = 0 351276.					
Less 2 new paper P. 22,12102 = 0 ✓					
P. 12,341 = 0					

Continuation